

प्रेस - विज्ञप्तिथाना कोतवाली

अम्बेडकर मूर्ति को तोड़कर जाति संगत की योजना बनाने वाले 02 नफर वांछित गिरफ्तार, कब्जे से एक

अदद लोहे की राड बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल पर्वेक्षण व प्र०नि० कृष्ण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर अलग -अलग टीम गठित कर अपराध/अपराधियों की धड़ पकड़ करने हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर सन्दिग्ध व्यक्ति / वाहनो की चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुआ जिसके क्रम में -

उ०नि० कमल नयन दूबे चौकी प्रभारी बलरामपुर मय हमराह कां० अरूण कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर पूर्व में पंजीकृत मु०अ०सं० 183/21 धारा 120बी , 153क,295 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण द्वारा थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा किये जा रहे निरोधात्मक व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही से बौखला कर स्थानीय पुलिस की छवि को खराब करने के आशय से साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडने तथा जातीय संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने के आशय से थाना कोतवाली अन्तर्गत ग्राम बद्धोपुर में बनी अम्बेडकर प्रतिमा जो एक वर्ग विशेष के श्रद्धा एवं सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है को तोड़ने का कुत्सित षडयन्त्र रचे है जिसमें अभियुक्तगण उपरोक्त के आलावा जिला कारागार में निरुद्ध विवेक सिंह पता अज्ञात भी शामिल रहा है। यदि पुलिस द्वारा स्थानीय द्वारा आसूचना एकत्र कर मुखबिर खास को लगाकर अभियुक्तगण को तत्काल नहीं पकडा जाता तो अवश्य ही वर्ग संघर्ष एवं जातीय संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर दिनांक 24.6.21 को समय 02.00 am पर ग्राम बद्धोपुर में अरबिन्द उपाध्याय के घर के सामने 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से एक अदद लोहे की राड बरामद किया गया। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण—

1. मु०अ०सं० 183/21 धारा 120बी , 153क,295 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त-

- 1.विजय सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी करतालपुर थाना कोतवाली आजमगढ़
- 2.महेश सिंह पुत्र शिवसंकर सिंह नि० म०न० 72 वार्ड नं० 4 ब्रह्मस्थान थाना कोतवाली आजमगढ़

बरामदगी माल का विवरण-

एक अदद लोहे की राड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

- 1.उ०नि० कमल नयन दूबे चौकी प्रभारी बलरामपुर
- 2.कां० अरूण कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़